

#Shajhanpurpol#

प्रेस नोट –दिनांक 16.03.2023

थाना बण्डा पुलिस का सराहनीय कार्य,

01 अदद चोरी की मोटर साइकिल व अवैध तमंचा-कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्री संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण तथा मादक पदार्थों की धर-पकड, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान आज दिनांक 16.03.2023 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 रजनीश कुमार मय का0 386 गौरव वाजपेई व का0 2689 हितेन मलिक के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम डिमरई में धर्मवीर अपने घर पर मौजूद है और उसके पास नाजायज तमंचा है व एक मोटर साइकिल कहीं से चोरी कर लाया है जो उसके बरामदों में खडी है, उ0नि0 रजनीश कुमार मय हमराही पुलिस बल के मुखबिर के बताये हुये मकान पर आये एवं एक बारगी दबिश देकर घेर-घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री गुलजार सिंह नि0 ग्राम डिमरई थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर को मौके पर ही समय करीब 21.20 बजे पकड लिया, इसकी जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 12 बोर एवं 01 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुया तथा बरामदे में खडी मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग नीला रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 26 B 8748 बरामद हुई । मोटर साइकिल के कागजात तलब किये तो दिखाने से कासिर रहा, मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल कुछ दिन पहले पीलीभीत से चोरी की थी, जो बेचने के लिए खडी है, लेकिन अभी तक कोई सही ग्राहक नहीं मिला। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 411/413 भादवि व 3/25 A Act से अवगत कराया गया एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 - 147/2023 धारा 411/413 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री गुलजार सिंह नि0 ग्राम डिमरई थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर ।

➤ अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-147/2023 धारा 411/413 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मवीर उपरोक्त, थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

2- मु0अ0सं0-786/2021 धारा 379/411 भादवि बनाम प्रगत सिंह व धर्मवीर सिंह उपरोक्त, थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

3- मु0अ0सं0-791/2021 धारा 411,413,414,420,483 भादवि बनाम प्रगत सिंह व धर्मवीर सिंह उपरोक्त, थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

4- मु0अ0सं0-793/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मवीर सिंह उपरोक्त, थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

5- मु0अ0सं0-298/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मवीर सिंह उपरोक्त, थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

➤ बरामदगी –

1- एक तमंचा देशी 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर,

2- एक अदद मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग नीला, रजि0न0 – UP 26 B 8748,

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- श्री संदीप मिश्रा प्रभारी निरीक्षक बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

2- उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

3- आरक्षी 386 गौरव वाजपेई थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

4- आरक्षी 2689 हितेन मलिक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,